

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 15.03.2023

वध हेतु ले जाये जा रहे 21 राशि गोवंश व 01 ट्रक वाहन बरामद (उदयपुर)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर अपराध/अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 14.03.2023 को थाना उदयपुर से उ0नि0 श्री चन्द्रभान यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के कीकड़ का जंगल शिवबोझ का पुरवा के पास से एक ट्रक नं0 यूपी 70 ईटी 6224 पर वध हेतु ले जाने के लिये लादे गये 21 राशि गोवंश जो रस्सी से बंधे हुए, को बरामद किया गया, पुलिस टीम को देखकर पशुओं को वाहन में लाद रहे कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात मौके से भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर फरार हो गये। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11(1)(डी) पशु क्रूरता अधिनियम बनाम ट्रक चालक व कंडक्टर एवं 6-7 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

01. 21 राशि गोवंश।
02. एक ट्रक नं0 यूपी 70 ईटी 6224 ।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री चन्द्रभान यादव मय हमराह थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

दहेज हत्या के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना दिलीपपुर)

जनपद के थाना दिलीपपुर के उ0नि0 श्री बलवीर सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना कन्धई के मु0अ0सं0 147/22 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र स्व0 लहुरी नि0 रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

ओम प्रकाश पुत्र स्व0 लहुरी नि0 रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री बलवीर सिंह मय हमराह थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना मान्धाता)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद के थाना मान्धाता के अनुज यादव व उ0नि0 श्री ब्रह्मदेव यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 308/22 धारा 279, 304 भादवि से संबंधित अभियुक्त मो0 अरशद पुत्र रियाज अहमद नि0 शाहगंज (भादीखास) थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मो0 अरशद पुत्र रियाज अहमद नि0 शाहगंज (भादीखास) थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री अनुज यादव व उ0नि0 श्री ब्रह्मदेव यादव मय हमराह थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।